

प्रेस नोट

दिनांक 05.09.2022

थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम में 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से एक बुलेरो पिकअप गाड़ी जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 05 पशु (03 भैंस व 02 कटरे) व 02 अवैध चाकू बरामद ।

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांगहे के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री चन्द्र प्रकाश शुक्ल अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से एक बुलेरो पिकअप गाड़ी में क्रूरतापूर्वक भरे हुये 05 पशु व 02 अवैध चाकू बरामद हुये ।

संक्षिप्त विवरण:- आज दिनांक 05.09.2022 की प्रातः थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास कर रहे एक बुलेरो पिकअप गाड़ी रजि0न0 UP23 AT 1551 सवार 02 अभियुक्त 1. कुलदीप पुत्र जगदीश निवासी ग्राम नवादा थाना डिडौली जनपद अमरोहा व 2. सरफराज पुत्र शफीक कुरैशी निवासी मौ0 तकिया मोतीशाह थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा को पीछा कर तलवार शाह मौहल्ला मोड के पास शराब की दुकान के पास से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से बुलेरो पिकअप गाड़ी में क्रूरतापूर्वक बांधे हुये 05 पशु (03 भैंस व 02 कटरे शरीर पर डण्डों की चोट निशान) व 02 अवैध चाकू बरामद हुये । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना अमरोहा नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. कुलदीप पुत्र जगदीश निवासी ग्राम नवादा थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
2. सरफराज पुत्र शफीक कुरैशी निवासी मौ0 तकिया मोतीशाह थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

बरामदगी का विवरण-

1. क्रूरतापूर्वक बांधे हुये 05 पशु (03 भैंस व 02 कटरे) जिनके शरीर पर डन्डों की चोट के निशान ।
2. एक बुलेरो पिकअप गाडी रजि0न0 UP23 AT 1551 ।
3. 02 अवैध चाकू ।

***अपराधिक इतिहास अभियुक्त कुलदीप*:-**

1. मु0अ0सं0 456/22 धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।
2. मु0अ0सं0 457/22 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

***अपराधिक इतिहास अभियुक्त सरफराज*:-**

1. मु0अ0सं0 456/22 धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।
2. मु0अ0सं0 458/22 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार वर्मा थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।
2. उ0नि0 सुभाष चौहान थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।
3. का0 80 रामकिशोर पटेल थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।
4. का0 1029 करनपाल थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।
5. का0 1352 अंकित थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा ।

PRO CELL AMROHA